



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1931 (श0)
(सं0 पटना 602) पटना, वृहस्पतिवार, 3 दिसम्बर 2009

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

2 दिसम्बर 2009

एस0ओ0 274, दिनांक 3 दिसम्बर 2009—बंगाल, आगरा एवं आसाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम सं0-XII) की धारा-13 की उपधारा (1) एवं धारा 14 की उपधारा (1) तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं0 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार राज्यपाल निदेश देते हैं कि—

(क) दरभंगा जिला में उद्भूत मामलों के निबटारे के लिये दरभंगा के अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय अब बेनीपुर में भी बैठेगा, और

(ख) बेनीपुर अनुमंडल की स्थानीय सीमाओं के भीतर उद्भूत मामलों को निपटाने के लिये दरभंगा सत्र खंड के अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय अब बेनीपुर में भी बैठेगा।

(ग) यह अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर 2009 से लागू होगी।

(सं0 सं0-ए0/एक्ट-4/07/4915/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

2 दिसम्बर 2009

एस0ओ0 275—एस0ओ0 274, दिनांक 3 दिसम्बर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/एक्ट-4/07/4915/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

The 2nd December 2009

S. O. 274 dated 3rd December 2009—In exercise of the powers conferred by Sub-Section(1) of Section-13 and Sub-Section(1) of Section-14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act. No. XII of 1887) and Sub-Section(3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the subject, the Governor of Bihar is pleased to direct that—

(a) The Court of Additional District Judge of Darbhanga Judgeship shall now also be held at Benipur for the disposal of cases arising in the district of Darbhanga; and

(b) The Court of Additional Session Judge of Darbhanga session division shall now also hold its sittings at Benipur for the disposal of such cases as may arise within the local limits of Benipur Sub-Division.

(c) This notification shall come into force with effect from 5th December 2009 .

(File No.-A/Not -4/07/4915/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

RAJENDRA KUMAR MISHRA,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 602-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>